

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 77]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी 2015—माघ 30, शक 1936

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

संशोधित-अधिसूचना

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 19 फरवरी, 2015 ( माघ 30, शक संवत् 1936 )

क्र. 3867-वि.स.-स्था.-15.—भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन विभाग के पत्र क्र. एफ. नं. 28-10-2001-एस. आर. (एस.), दिनांक 22 जुलाई, 2003 में जारी दिशा-निर्देश के अनुसरण में अंतिम आवंटन संबंधी इस सचिवालय की अधिसूचना क्रमांक 8727-वि.स.-स्था.-04, दिनांक 11 मई 2004 के तारतम्य में निम्नलिखित अधिकारियों / कर्मचारियों द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विधान सभा में स्थायी रूप से सेवाएं सौंपे जाने संबंधी प्रस्तुत विकल्प पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए दोनों राज्य विधान सभाओं की परस्पर सहमति के आधार पर उपर्युक्त जारी अधिसूचना में एतद्वारा निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.	अंतिम आवंटन सूची का सरल क्र.	नाम	धारित पदनाम	अधिसूचना दिनांक 11 मई 2004 में आवंटित राज्य	दिनांक 11 मई 2004 की अधिसूचना में संशोधन पश्चात् आवंटित राज्य	अन्य विवरण
1	19	श्री चन्द्रशेखर गंगराड़े	अवर सचिव	मध्यप्रदेश	छत्तीसगढ़	
2	23	श्री शिवकुमार राय	अवर सचिव	मध्यप्रदेश	छत्तीसगढ़	
3	30	श्री देवेन्द्र वर्मा	अनुसंधान अधिकारी (पु.)	मध्यप्रदेश	छत्तीसगढ़	
4	232	श्री रामकृष्ण तिवारी	स्टेनो टायपिस्ट	मध्यप्रदेश	छत्तीसगढ़	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
एस. एल. मैथिल,  
उपसचिव,  
मध्यप्रदेश विधान सभा.